

संपादन एवं संचालन  
एकलव्य

ई-10 शंकर नगर बी.डी.ए. कॉलोनी,  
शिवाजी नगर, भोपाल (म.प्र.) 462 016

फोन: 0755 - 2550976 0755 - 2671017

ई-मेल: srote@eklavya.in, srotefeatures@gmail.com

www eklavya.in



# स्रोत

विज्ञान एवं टेक्नॉलॉजी फीचर्स

जुलाई 2010

वर्ष-4 अंक-6 (पूर्णांक 258)

## संपादक

सुशील जोशी

## सहायक संपादक

अफसाना पठान  
अम्बरीष सोनी

## उत्पादन सहयोग

इंदु नायर जितेंद्र ठाकुर  
राकेश खत्री कमलेश यादव

## वार्षिक चंदा

व्यक्तिगत 150 रुपए  
संस्थागत 300 रुपए  
एक प्रति 15 रुपए

चंदे की रकम कृपया एकलव्य,  
भोपाल के नाम बने ड्राफ्ट या  
मनीऑर्डर से भेजें।

मच्छर भगाने वाले रसायनों से नहीं भागते मच्छर	2
लेज़र से बारिश	2
चूहों के चेहरे पर दिखता है दर्द	4
गुर्दे की क्षति के जैव-सूचक	4
किस्सा बगैर भोजन-पानी के जीवन का	डॉ. सुशील जोशी 6
चिमेंज़ी मृतक का शोक मनाते हैं	8
बाज़ार में हमारी स्वास्थ्य सुरक्षा	डॉ. कावेरी नाम्बीसेन 9
क्या एलिएन्स से संपर्क करना ठीक होगा?	12
एक डाल पर तोता बोले, एक डाल पर...	डॉ. किशोर पंवार 13
जीनियस पैदा होते हैं या बनाए जाते हैं?	डॉ. डी. बालसुब्रमण्यन 15
हरित क्रांति और रिछारिया की चेतावनी	सुनील 19
ज्वालामुखी की राख, विमानों की शामत	बिमल श्रीवास्तव 21
नर्मदा घाटी के डायनासौर	डॉ. रवि उपाध्याय एवं शरद त्रिवेदी उपाध्याय 25
ईश्वर कण - गॉड पार्टिकल	विश्व मोहन तिवारी 27
बांध निर्माण के बाद का विस्थापन	भारत डोगरा 29
टाइटन पर जीवन: क्या कहता है आधुनिक शोध?	डॉ. उपाध्याय 30
शार्क में बगैर नर के शिशु जन्म	31
समूचे चेहरे का प्रत्यारोपण	32
जिनेटिक रोगों का जुड़वां अध्ययन	32
ज़हरीली ज्वालामुखी झील में जैव विविधता	33
फालतू डीएनए उतना फालतू भी नहीं होता	34
जैव विकास को अपने हाथों में लेते वैज्ञानिक	36
बुझने के बाद भी घातक हो सकती है सिगरेट-बीड़ी	डॉ. अरविंद गुप्ते 37

स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। यह मासिक संस्करण स्वयंसेवी संस्थाओं, सरकारी संस्थाओं व पुस्तकालयों, विज्ञान लेखन से संबद्ध तथा विज्ञान व समाज के रिश्तों में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के विशेष अनुरोध पर स्रोत के साप्ताहिक अंकों को संकलित करके तैयार किया जाता है। यहां प्रकाशित सामग्री का उपयोग गैर व्यावसायिक कार्यों के लिए करने हेतु किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। स्रोत का उल्लेख अवश्य करें।